



# स मा चार

विधानसभा अध्यक्ष श्री गौतम ने सहकारिता दिवस पर रचना टावर्स परिसर में किया वृक्षारोपण  
वृक्ष नहीं तो कल नहीं, यह नारा नहीं चेतावनी है: श्री गौतम

भोपाल, 3 जुलाई। मध्यप्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष माननीय श्री गिरीश गौतम ने शनिवार को अंतरराष्ट्रीय सहकारिता दिवस के अवसर पर रचना टावर्स आवासीय परिसर में वृक्षारोपण किया। इस अवसर पर सहकारिता मंत्री श्री अरविंद भदौरिया, विधानसभा की आवास समिति के अध्यक्ष श्री यशपाल सिसौदिया, अन्य अधिकारी एवं प्रबुद्धजन उपस्थित थे। रचना टावर्स परिसर का निर्माण विधानसभा/लोकसभा सदस्यों, पूर्व सदस्यों तथा विधानसभा सचिवालय के कर्मचारियों-अधिकारियों के लिए किया जा रहा है। इस अवसर पर श्री गौतम ने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं में लगातार वृद्धि हो रही है, इन्हें रोकने के लिए प्रकृति में संतुलन जरूरी है। आज आवश्यकता है वृक्षारोपण की। पेड़ नहीं तो कल नहीं यह सिर्फ एक नारा नहीं है, अपितु एक चेतावनी है।

श्री गौतम ने कहा कि आज ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याएं खड़ी हुई हैं। हम अपने लालच की पूर्ति के लिए जंगलों को उजाड़ रहे हैं, पहाड़ों को खोद रहे हैं। यह गंभीर स्थिति के संकेत हैं। हमें यह समझना चाहिए की एक पेड़ की क्या कीमत होती है। उन्होंने कहा कि विकास को रोका नहीं जा सकता है। सड़क, बांध, घर सबकुछ बनेंगे, लेकिन प्रकृति में संतुलन भी जरूरी है। यह तय करना आवश्यक है कि यदि हम एक पेड़ काटे तो उसके बदले में दस पेड़ लगाएं।

माननीय अध्यक्ष ने प्रकृति संरक्षण के लिए विंध्य अंचल की समृद्ध परंपराओं की जानकारी देते हुए बताया कि वहां पर वृक्ष को पुत्र मान कर उसके पालन पोषण के साथ ही बगीचे के विवाह तक की परंपरा है। इन परंपराओं के पीछे का उद्देश्य प्रकृति को बचाना ही है। पहले जब ऑक्सीजन की कमी नहीं थी तब भी वृक्ष के संरक्षण का भाव था, तो आज की स्थिति में तो हमें इसके महत्व को अवश्य समझना चाहिए।

वि.स./ज.स./21

(नरेन्द्र मिश्रा)

अवर सचिव